

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corp Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Regd Off: 19th K M, Hapur Bulandshahr Road P.O.: Gulaothi, Distt.: Bulandshahr UP 245408

Tel.: 011- 40322100; E-mail: cs_jpifcl@jindalgroup.com

CIN: L65923UP2012PLC051433

Ref: JPIFCL/SE/NOV-25/159

Date:15.11.2025

The Manager Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Stock Code: 536773	The Manager, Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Stock Code: JPOLYINVST
--	--

Dear Sir / Madam,

Subject: Intimation under Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) - Newspaper clippings of the published financial results

In terms of Regulation 47(1) and (3) read with Schedule III of the SEBI Listing Regulations, the Company hereby informs that the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter and half year ended on september 30, 2025 of the financial year 2025-26 have been published in **Jansatta (Hindi)** and **Financial Express (English)** Newspapers on **November 15, 2025**, the copies whereof are attached herewith for your records.

As required under Regulation 46(2) (1) and (q) the said publications have also been placed, for reference of the members, on the Company’s website at www.jpifcl.com as well as on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

This is for your information and record purpose.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Ghanshyam Dass Singal

Managing Director

Encl: as above



S.P. APPARELS LIMITED

CIN: L18101TZ2005PLC012295

Regd. Office: 39-A, EXTENSION STREET, KAIKATTIPUDUR, AVINASHI, TIRUPUR- 641654
Tel: +91-4296-714000, Fax: +91-4296-714280, 714281 Email ID: csoffice@spapparels.com,
Website: www.spapparels.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Board of Directors of S.P.Apparels Limited at its meeting held on November 14, 2025, based on the recommendation from Audit Committee has approved the unaudited financial results for the Quarter and half year ended September 30, 2025, subject to Limited Review by the Statutory Auditor of the Company, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015.

The aforesaid results are also being disseminated on Company's website at <https://www.s-p-apparels.com/wp/financial-information/> and can also be accessed by scanning a Quick Response code.

Place: Avinashi
Date: November 14, 2025



Scan the QR Code to view the financial results on the website of the company

For S.P.Apparels Limited
P. Sundararajan
Chairman & Managing Director
DIN: 00003380

MOLDTEK MOLD-TEK TECHNOLOGIES LIMITED									
Registered Office: Plot No. 700, Door No. 8-2-293/82/A/700, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana. CIN: L25200TG1985PLC005631. Ph No: 40300300, Fax No: 40300328. Email: ir@moldtekindia.com Website: www.moldtekgroup.com									
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2025									
₹ in Lakhs (Except for EPS)									
Particulars	Standalone				Consolidated				
	Quarter Ended		Half Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from Operations	3877.94	3097.24	4000.80	6975.18	7615.20	13297.57	4176.25	3526.33	4350.90
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	425.27	71.69	1075.18	496.96	1742.07	1603.92	433.59	81.27	1081.68
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	425.27	71.69	1075.18	496.96	1742.07	1603.92	433.59	81.27	1081.68
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	315.20	58.89	793.94	374.09	1303.52	1189.17	323.52	68.47	800.44
Total Comprehensive Income for the period	378.78	644.46	698.55	1023.24	1225.11	531.36	395.72	652.72	706.49
Equity Share Capital	576.10	576.10	571.29	576.10	571.29	576.10	576.10	571.29	571.29
Earnings Per Share of ₹. 2/- each)									
a) Basic	1.10	0.20	2.78	1.30	4.56	4.16	1.12	0.24	2.80
b) Diluted	1.10	0.20	2.75	1.30	4.52	4.12	1.12	0.24	2.78

Notes:
The above is an extract of the detailed format of the Unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended on 30th September 2025 filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended on 30th September 2025 are available for investors at www.moldtekgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com



For Mold-Tek Technologies Limited
Sd/- J. Lakshmana Rao
Chairman & Managing Director
DIN: 00649702

SUPER TANNERY LIMITED									
CIN No.: L19131UP1984PLC00621									
Regd. Office: 187/170, Jajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P.); Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com									
EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025									
₹ in Lakhs									
Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Three Months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Three Months ended 30.06.2025 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2025 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Three Months ended 30.06.2025 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2025 (Unaudited)
		30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)
1.	Total Income	6,142.10	6,929.59	7,731.37	13,071.69	6,262.26	6,833.64	7,904.76	13,095.90
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	512.24	649.27	548.80	1,161.51	468.18	623.58	479.05	1,091.76
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	145.20	335.67	237.91	480.87	99.87	308.46	163.29	408.33
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	145.20	335.67	237.91	480.87	99.87	308.46	163.29	408.33
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	113.08	243.97	167.05	357.05	67.75	216.76	92.43	284.51
6.	Total Comprehensive Income for the period.	121.80	266.59	193.79	388.39	75.03	237.87	118.93	318.80
7.	Equity Share Capital (Face value of Re.1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Re.1/-each) (Not Annualized *)								
	Before Extraordinary Items (in Rs.)	0.10	0.23	0.15	0.33	0.06	0.20	0.09	0.26
	After Extraordinary Items (in Rs.)	0.10	0.23	0.15	0.33	0.06	0.20	0.09	0.26

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com.

2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements".



For and on Behalf of the Board of Directors
Mohd. Imran
Director(Finance) & CFO
DIN 00037627

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65923UP2012PLC051433

Regd. Office: 19th K.M. - Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulothi, Bulandshahr - 203408 (U.P.)
Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Website: www.jpifcl.com; E-mail: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Phone No. 011-40322100

Unaudited Financial Results For the Quarter and Half Year Ended 30th September 2025

Rs in lakhs except EPS

Rs in lakhs except EPS

Consolidated					Particulars	Standalone				
Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
30.09.2025 Unaudited	30.06.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited		30.09.2025 Unaudited	30.06.2025 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited
1,912.00	835.00	790.39	2,747.00	1,606.43	Total Income from Operations	1,912.00	835.00	791.01	2,747.00	1,606.00
1,865.00	790.00	742.83	2,655.00	1,513.79	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,865.00	790.00	744.01	2,655.00	1,514.00
6,135.00	6,393.00	14,052.13	12,528.00	19,723.08	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) and before non-controlling interest and after share of profit from associate, attributable to Equity Holders of the parent	1,865.00	790.00	744.01	2,655.00	1,514.00
5,754.00	6,276.00	13,980.13	12,030.00	19,575.27	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, non-controlling interest and share of profit from associate, attributable to Equity Holders of the parent	1,484.00	673.00	672.01	2,157.00	1,367.00
6,045.00	7,407.00	14,977.13	13,452.00	20,728.27	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) an Other Comprehensive Income (after Tax)) attributable to Equity Holders of the parent	1,484.00	673.00	672.01	2,157.00	1,367.00
1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19
				1,51,398.00	Other Equity (excluding revaluation reserve)					70,040.00
54.74	59.70	133.00	114.44	186.22	Basic Earnings / (Loss) Per Share	14.12	6.40	6.38	20.52	12.99
54.74	59.70	133.00	114.44	186.22	Diluted Earnings / (Loss) Per Share	14.12	6.40	6.38	20.52	12.99

- Notes**
- Financial Results has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder.
 - These Financial Results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on 13.11.2025 and limited review of these results has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
 - The company is mainly engaged in Investment Activity and has only one operating segment of business and do not qualify for segment reporting under IND AS 108.
 - Deferred Tax for the year ended 31.03.2025 includes the impact of change in income tax laws and applicable tax rates on capital gains.
 - Previous quarter/period/year figures have been regrouped / reclassified and rearranged wherever required to make them comparable.
 - The results of the company are available for investors at website of the company www.jpifcl.com and at the website of stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.
 - The board of directors of Jindal India Powertech Limited (JIPTL) (associate company), in terms of the provisions of sections 230 to 232 and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder, in its meeting held on 10th January 2025 had considered and approved a scheme of arrangement ("Scheme") involving demerger of power business division (as defined in the Scheme) of the Company with and into its subsidiary company namely Jindal India Power Limited (Resulting Company). A copy of the said Scheme was also filed before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-V at New Delhi ("Tribunal") for its approval. The Hon'ble Tribunal after hearing the matter has announced the final order on 10th November 2025. The certified copy of the order of Tribunal is yet to be received. Hence the impact of the scheme shall be taken in the books after receipt of the certified copy of the order and completion of required compliances thereto.



Place : New Delhi
Date : 13.11.2025

By order of the Board
For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited
Sd/-
Ghanshyam Dass Singal
Managing Director
DIN: 00780819



KINARA CAPITAL PRIVATE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS VISAGE HOLDINGS AND FINANCE PRIVATE LIMITED)
Registered Office: #50, 2nd Floor, 100 Feet Road, HAL 2nd Stage, Indiranagar, Bangalore-560 038. CIN-U74899KA1996PTC068587, RBI Registration: B-02.00255
www.kinaracapital.com | Email: CS@kinaracapital.com | Phone: +91 (80) 43241000

Financial results for the Quarter Ended September 30, 2025

[Regulation 52(8), read with regulation 52(4) of the Listing Regulations]

(All amounts in ₹lacs except otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2024 Unaudited	Year Ended 31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	9,814.49	16,984.60	68,822.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(27,970.45)	(4,072.53)	(37,119.77)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(28,021.02)	(4,072.53)	(37,119.77)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(28,021.02)	(3,047.02)	(35,123.26)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(28,426.89)	(3,225.35)	(36,119.81)
6	Paid up Equity Share Capital	1,279.59	1,279.59	1,279.59
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(1,130.57)	68,452.49	36,113.85
8	Securities Premium Account	59,859.13	59,881.26	59,877.51
9	Net Worth	149.02	69,732.08	37,393.44
10	Net Worth (Considering CCPS as Equity as per Section 43 of Companies Act, 2013)	5,291.00	69,732.08	42,535.42
11	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,41,164.05	2,34,536.14	2,14,028.16
12	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt (Considering CCPS as Equity as per Section 43 of Companies Act, 2013)	1,36,022.07	2,34,536.14	2,08,886.18
13	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
14	Debt Equity Ratio [Debt Securities (+) Borrowings (other than debt securities) (+) Subordinated Liabilities / Total Equity]	947.28	3.36	5.72
15	Debt Equity Ratio [Debt Securities (+) Borrowings (other than debt securities) (+) Subordinated Liabilities / Total Equity] (Considering CCPS as Equity as per Section 43 of Companies Act, 2013)	25.71	3.36	4.91
16	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic: (₹)	(218.98)	(23.81)	(274.49)
	2. Diluted: (₹)	(218.98)	(23.81)	(274.49)
17	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
18	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
19	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
20	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Exceptional items comprise income arising from extinguishment of liabilities by certain domestic lenders and the one-time loss on sale of a portfolio to certain domestic lenders in lieu of settlement of borrowings. Both transactions were undertaken pursuant to lender-led resolution frameworks. These items have been netted off and presented on a net basis.

Notes:

- The above unaudited financial results of Kinara Capital Private Limited (the 'Company') have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and accordingly, these unaudited financial results together with the results for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other accounting principles generally accepted in India, circulars, guidelines, directions issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and in compliance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations").
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and our company (www.kinaracapital.com).
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (Bombay Stock Exchange) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).
- The impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies is available in the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and our company (www.kinaracapital.com).
- During the year ended 31 March 2025, the Company has allotted 7,00,562 Series-1 Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) of face value of 20 each at a premium of 713.98 per share aggregating to 5,141.98 lacs. As per Ind AS 32 'Financial Instruments Presentation' and terms of conditions of such preference shares, they are required to be classified as a financial liability and presented in accordance with Schedule III division III of the Companies Act, 2013.
- Earnings per share for the year ended 31 March 2025 is annualized and Earnings per share for the quarter ended 30 September 2024 and 30 September 2025 are not annualized.

For Kinara Capital Private Limited
Sd/-
Hardika Shah
DIN: 03562871
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place: Bengaluru
Date: November 14, 2025



Marico Limited

Extract of Consolidated Financial Results of Marico Limited for the quarter and half year ended September 30, 2025

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	September 30, 2025 (Un-audited)	June 30, 2025 (Un-audited)	September 30, 2024 (Un-audited)	September 30, 2025 (Un-audited)	September 30, 2024 (Un-audited)	March 31, 2025 (Audited)
	Rs (in Crore)	Rs (in Crore)	Rs (in Crore)	Rs (in Crore)	Rs (in Crore)	Rs (in Crore)
Revenue from operations	3,482	3,259	2,664	6,741	5,307	10,831
Profit before tax	550	656	552	1,206	1,157	2,116
Net Profit for the period attributable to owners (after Minority Interest)	420	504	423	924	887	1,629
Total Comprehensive attributable to owners (after Minority Interest)	443	490	440	933	850	1,560
Equity Share Capital	130	129	129	130	129	129
Earnings Per Share (of Re 1/- each) (Not annualised)						

B L KASHYAP WE BUILD YOUR WORLD B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED (L74899DL1989PLC036148) Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025 Ph: 91-11-40500300 ; Fax: 91-11-40500333 Website: www.blkashyap.com , Email: info@blkashyap.com						
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALY YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025						
Rs. In Lakhs						
Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED	
		Quarter ended	Half Year Ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year Ended
		30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)
1	Total Income from operations	35,203.40	68,698.80	27,567.04	35,707.50	69,620.62
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	661.86	2,105.73	1,633.88	772.62	2,230.85
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	661.86	2,105.73	1,633.88	772.62	2,230.85
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	419.79	1,491.81	1,087.49	(861.74)	223.41
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	414.70	1,481.62	1,065.36	(867.05)	212.79
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	70,738.91	70,738.91	68,668.59	50319.15	50,319.15
8	Earning Per Share of Re: 1/- each (for continuing and discontinued operations)					
	Basic:	0.19	0.66	0.48	(0.38)	0.10
	Diluted :	0.19	0.66	0.48	(0.38)	0.10
Notes: 1 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2025 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com). 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2025.						
Place: New Delhi Dated: 14.11.2025 For & on behalf of the Board of B.L. Kashyap and Sons Limited Sd/- Vineet Kashyap Managing Director (DIN: 00038897) Scan QR code to view Results						
WE BUILD YOUR WORLD						

CRANEX क्रनेक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 9, डीडीए मार्केट, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016/ कॉर्पोरेट कार्यालय:- 57/1, औद्योगिक क्षेत्र, साइट IV, साहिबाबाद (उ.प्र.)-201010 वेबसाइट: www.cranexltd.com, ई-मेल: investors@cranexltd.com, सीआईएन: L74899DL1973PLC006503 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए क्रनेक्स लिमिटेड के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में)											
विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित				
	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.06.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2024 अलेखापरीक्षित	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2024 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.06.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2024 अलेखापरीक्षित	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 अलेखापरीक्षित
परिचालनों से कुल आय	1340.32	810.62	1339.94	2258.95	2243.08	5196.38	1346.32	810.62	1339.94	2258.95	5186.36
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	73.66	31.35	67.83	105	94.57	251.54	73.66	31.35	67.82	105	251.55
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	73.66	31.35	67.83	105	94.57	251.54	73.66	31.14	67.79	104.79	251.55
कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	66.10	24.41	69.62	90.56	90.05	194.62	66.16	24.2	69.59	90.37	194.63
एग्रीगेट के लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-	-	-	-	-	-	-0.21	-0.53	-0.21	-0.06
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	66.13	27.34	69.95	95.46	91.59	193.9	1.96	27.13	69.91	95.25	193.91
इन्विट शेयर पूंजी (मात्र में)	657	657	600	657	600	657	657	657	600	657	600
आय प्रति शेयर (इंपीएस) (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)											
1. मूल	1.01	0.37	1.16	1.38	1.5	3.21	1.01	0.37	1.16	1.38	3.21
2. डाइल्यूटेड	0.75	0.28	1.16	1.03	1.5	2.35	0.75	0.28	1.16	1.03	2.35
नोट: 1. उपरोक्त सेवा (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 3. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') को उसके अंतर्गत प्रारंभिक नियमों के साथ अपनाया है और तदनुसार ये वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित इंड-एएस, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा संशोधित, के अनुसार तैयार किए गए हैं।											
क्रनेक्स लिमिटेड के बोर्ड की ओर से हस्ता./— चैतन्य अग्रवाल पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन: 05108890											
स्थान: गाजियाबाद दिनांक: 13 नवंबर, 2025											

जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हाउस-इन्वेंस्टमेंट गेट, पो ऑफ, गुलाबती, बुलन्दशहर-203408 (उ.प्र.)

मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, लोकल शांति कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-बी-1, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070

वेबसाइट : www.jpifcl.com; ई-मेल : csjpfcl@jindalgroup.com, दूरभाष : 011-40322100

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

इंपीएस को छोड़कर राशि रु.

समेकित						विवरण	स्टैंडअलोन					
समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष			समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	
1,912.00	835.00	790.39	2,747.00	1,606.43	3,169.00	परिचालनों से कुल आय	1,912.00	835.00	791.01	2,747.00	1,606.00	
1,865.00	790.00	742.83	2,655.00	1,513.79	2,982.00	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,865.00	790.00	744.01	2,655.00	1,514.00	
						कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि)					2,982.00	
6,135.00	6,393.00	14,052.13	12,528.00	19,723.08	27,002.00	(असाधारण तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) और गैर-निर्वाचित हित से पहले और सहयोगी से लाभ के हिस्से के बाद, मूल कंपनी के इन्विट धारकों को एटीयूटैबल है	1,865.00	790.00	744.01	2,655.00	1,514.00	
											2,982.00	
5,754.00	6,276.00	13,980.13	12,030.00	19,575.27	29,584.00	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि), गैर-निर्वाचित हित और सहयोगी से लाभ का हिस्सा, जो मूल कंपनी के इन्विट धारकों को एटीयूटैबल है	1,484.00	673.00	672.01	2,157.00	1,367.00	
											5,564.00	
6,045.00	7,407.00	14,977.13	13,452.00	20,728.27	30,506.00	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल) जो मूल कंपनी के इन्विट धारकों को एटीयूटैबल है	1,484.00	673.00	672.01	2,157.00	1,367.00	
											5,564.00	
1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	प्रदत्त इन्विट शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	1,051.19	
					1,51,396.00	अन्य इन्विट (पुनर्मूल्यंकन आरक्षित को छोड़कर)					70,040.00	
54.74	59.70	133.00	114.44	186.22	281.43	प्रति शेयर वेंचर्स आय/(हानि)	14.12	6.40	6.38	20.52	12.99	
54.74	59.70	133.00	114.44	186.22	281.43	प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय/(हानि)	14.12	6.40	6.38	20.52	12.99	

नोट :

1. वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 इसके तहत जारी प्रारंभिक नियमों के साथ पठित के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई और 13.11.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इन्हें रिकॉर्ड में लिया गया और कंपनी के सांख्यिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

3. कंपनी मुख्य रूप से निवेश गतिविधि में लगी हुई है और इसका व्यवसाय का केवल एक ही परिचालन खंड है और यह इंड एएस 108 के तहत खंड रिपोर्टिंग के लिए योग्य नहीं है।

4. 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आश्रयित कर में आयकर कानूनों में परिवर्तन और पूंजीगत लाभ पर लागू कर दरों का प्रभाव शामिल है।

5. पिछली तिमाही/अवधि/वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्संयोजित/पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

6. कंपनी के परिणाम निवेशकों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.jpifcl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

7. जिन्दल इंडिया पावरटेक लिमिटेड (जेआईपीटीएल) (सहयोगी कंपनी) के निदेशक मंडल ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, 10 जनवरी 2025 को हुई अपनी बैठक में, कंपनी के विद्युत व्यवसाय प्रभाग (योजना में परिभाषित) का उसकी सहायक कंपनी जिन्दल इंडिया पावर लिमिटेड (परिणामी कंपनी) में विभाजन करने संबंधी एक व्यवस्था योजना ('योजना') पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। उक्त योजना की एक प्रति माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-ए नई दिल्ली ('अधिकरण') के समक्ष अनुमोदन हेतु भी प्रस्तुत की गई थी। माननीय अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद 10 नवंबर 2025 को अंतिम आदेश की घोषणा की है। न्यायाधिकरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए योजना का प्रभाव आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने तथा उसके लिए आवश्यक अनुपालन पूरा होने के बाद इसे पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

ह./—

धनश्याम दास निधिल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00708019

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड

सीआईएन : L32202RJ1992PLC017750

पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, 3, आम्बपाली सर्कल, वैष्णवी नगर, जयपुर- 302021,

राजस्थान, भारत वेबसाइट : www.shyamtelecom.com

30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के पुनरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में, प्रति समता अंश पूंजी ऑफ़डा छोड़कर)				
	समाप्त तिमाही 30-09-2025	समाप्त अर्द्धवर्ष 30-09-2025	समाप्त तदनुसूची तिमाही 30-09-2024	समाप्त वर्ष 31-03-2025
विवरण	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2024	31/03/2025
कुल आय	3.31	6.88	3.29	13.86
कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(44.68)	(439.40)	(45.32)	(173.87)
कर पूर्व एवं आपवादिक मदों के पश्चात् की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(44.68)	(439.40)	(45.32)	(173.87)
कर एवं आपवादिक मदों के पश्चात् की अवधि का निवल लाभ / (हानि)	(44.55)	(439.13)	(45.19)	(183.75)
अवधि की कुल व्यापक आय [अवधि का लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट]	(44.64)	(438.73)	(45.24)	(184.81)
समता अंश पूंजी	1,127.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00
आरक्षित (पुनर्मूल्यंकन आरक्षितियाँ छोड़कर)	(4,367.74)	(4,367.74)	(3,831.24)	(3,929.01)
आय प्रति अंश (ईपीएस) रु. 10/- — प्रत्येक का अंकित मूल्य				
(क) मूलभूत	(0.40)	(3.89)	(0.40)	(1.64)
(ख) तरलीकृत	(0.40)	(3.89)	(0.40)	(1.64)

टिप्पणियाँ :

1) दिनोंक 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 14 नवंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया है। उक्त परिणामों को, कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों द्वारा पुनरीक्षित किया गया है।

2) उपरोक्त सारांश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम प्रदान (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालनान्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। इन परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.shyamtelecom.com) पर उपलब्ध है।

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड

के निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से

हस्ता./—

अजय खन्ना

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00027549

दिनोंक : 14-11-2025

स्थान : नई दिल्ली

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED CIN : L14106UP1995PLC019017 (Under Corporate Insolvency Resolution Process) Registered Office: Sector 128, Noida – 201 304, U.P.(India), Telephone: +91 (120) 2470800 Corporate Office: 64/4, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Dist. Ghaziabad 201010 Uttar Pradesh, Telephone: +91(0120) 4963100, 4964100 Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES	
Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. The Special Window is open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is specially applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests alongwith the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Alankit Assignments Limited, 2E/21, Jhandelwalan Extension, New Delhi-110055 (Tel.No.011-42541234/23541234) within stipulated period. This communication is also updated on the website of the Company at www.jalindia.com.	
For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED SOM NATH GROVER Vice President & Company Secretary Membership No. FCS-4055	
Place: Sahibabad Date: 14.11.2025	

कार्यालय वसुली अधिकारी- II

ऋण वसुली अधिकरण- II, दिल्ली

चौकी मंडिल, जीवन तारा बिडिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

टी.आर.सी. सं. 110/2023

दिनांक : 28.10.2025

पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम एम.आई. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक 28.10.2025 के आदेशानुसार निर्मांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई-नीलामी दिनांक 18.12.2025 उल्लेखित ऋण वसुली प्रमाण पत्र में

नीलामी बिडि वेबसाइट <https://bankauctions.com> के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी

ई-नीलामी की तिथि और समय : दिनांक 18.12.2025, अपॉ. 03.00 बजे तथा अपॉ. 04.00 बजे के बीच (अपॉ 04.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

लॉट सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1	सम्पत्ति, खाली प्लॉट संख्या-एफ-23/2, ब्लॉक-एफ-23, तेरापथ मार्ग, नगर निगम प्रतिभा विद्यालय के पास, कृष्णा नगर नामक आवासीय क्षेत्र में दिल्ली-110051	रु. 7,07,00,000/-	रु. 70,70,000/-

नियम व शर्तें

1- नीलामी बिडि वेबसाइट <https://bankauctions.com>. के माध्यम से "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बिडि द्वारा ई-नीलामी" होगी।

2- इच्छुक बोलीदारों को घरोर राशि पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi चाहे TCR No. 110/2013" के पक्ष में देय हो, अथवा और टी जी एर द्वारा अमोलित किया जाता संख्या 06120400500001 आईएफएससी कोड <https://psib00000602> बैंक- पंजाब एंड सिंध बैंक, सिन्धुवा एम्पल, नई दिल्ली, राज्या में छाया में कर, उक्त डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर ए और ई एफ टी / आर टी एर द्वारा ईमपीडी भुगतान का मूल साक्ष्य, स्व-प्रमाणित पहचान साक्ष्य (विटर आई की आई) / ड्राइविंग लाईसेंस / पासपोर्ट / और पेन कार्ड की प्रति सहित, जिसमें पचासवार का पता अंकित हो, वसुली अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 18.12.2025 को अपॉ. 4 बजे के बाद के सुप्रेत जमा कराना होगा क्योंकि के मामले में, एक घोषणा भी प्रस्तुत की जाती चाहिए कि बोली उसकी और जो उसके प्रमाण की ओर से है। याता के मामले में, बोलीदार को अपने अपमान अधिकार जमान करने की आवश्यकता होगी और चूक के मामले में, उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी। और घरोर राशि सहित पचासा स्वीकार नहीं की जाएगी।

3- घरोर राशि द्वारा लिपिबद्ध के उपर "TRC No.110/2023" अंकित होगा और साथ में बोलीदार का पूर्ण पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. भी अंकित होना चाहिए।

4- सम्पत्ति योगों की बिडि "जैसा है जहां है और जैसा है के आधार" पर की जाएगी।

5- बोलीदारों को को अपनी बोली देने और ई-नीलामी बिडि प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिडि हेतु नियम तथा शर्तों के लिए वेबसाइट <https://bankauctions.com> देखने तथा /अथवा भी संजय प्रसाद, अधिकारी, भी पूछी राज, सहायक महाप्रबंधक, सीएफ बैंक, मोबाइल नंबर 8094400053 के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

6- इच्छुक बोलीदारों को हमारे ई-नीलामी सर्विस प्रोवाइडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और यह घरोर राशि पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट का साक्षात्कार होना चाहिए और संश्लेष टी आर सी, लि. के लिए प्रमाण, फेंक-बंद, गटक पैट्रोकन बिडिंग, प्लॉट नं. 301, गुडगार्ड-122015, हरियाणा, श्री मिथेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं. 70808 04466 ईमेल mithaesh.kumar@c1india.com & delhi@c1india.com, support@bankauctions.com पर सम्पर्क कर ऑन लाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

7- इच्छुक बोलीदारा मैसर्स सी. इंडिया प्रा. लि. उद्योग विहार, फेंक-बंद, गटक पैट्रोकन बिडिंग, प्लॉट नं. 301, गुडगार्ड-122015, हरियाणा, श्री मिथेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं. 70808 04466 ईमेल mithaesh.kumar@c1india.com & delhi@c1india.com, support@bankauctions.com से सम्पर्क कर के ई-बिडिंग प्रक्रिया को ट्रेनिंग ले सकते हैं।

8- पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से घरोर राशि जमान करने के पश्चात ही, बैलेंड यूजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीदारा ही ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

9- इच्छुक बोलीदारों हेतु सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 28.11.2025 और 29.11.2025 को पूर्ण 11.00 बजे से अपॉ. 16.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

10- इच्छुक बोलीदारों को निम्नलिखित अपनी बोली (आश्रित मूल्य से कम नही) वसुली अधिकारी- II, जी आर टी- II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 18.12.2025 को जमान कर दें, वे ही दिनांक 18.12.2025 को अपॉ. 03.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक लेने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोली यदि ई-नीलामी प्रणाली हेतु निम्नलिखित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो अपॉ. 4 बजे से अपॉ. 4 बजे में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बंद जाएगा।

11- बोलीदारा अपनी बोली र. 200,000 /- (दो लाख मात्र) सम्पत्ति के गुणवत्ता में बदराएंगे।

12- असफल बोलीदारा अपनी बोली घरोर राशि ई-नीलामी बिडि प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सौंपी वसुली अधिकारी- II, जी आर टी- II, दिल्ली / सी एफ बैंक अथवा बैंक अधिकारी के पास कर सकते हैं।

13- सफलता / उद्घाटन बोलीदारा को बिडि मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी- II, ऋण वसुली अधिकरण- II, दिल्ली, खाता टी आर सी 110 / 2023 के पत्र में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा धारक बोली को समायोजित करने के पश्चात जमान बैकिंग कार्यालय द्वारा अपॉ. 4.00 बजे तक रिवाइटी अधिकारी के कार्यालय में जमान करना होगा।

14- सफलता / उद्घाटन बोलीदारा सम्पत्ति बिडि मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी- II, जी आर टी- II, दिल्ली, खाता टी आर सी 110 / 2023 के पत्र में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिडि की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन एर या उससे पहले वसुली अधिकारी- II, जी आर टी- II, दिल्ली के समक्ष जमान करेगा और अपॉ. 15वें दिन रिवाइटी या अकावाहोता होने तों अपॉ. 4 बजे तक पे (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएगा। अपॉ. 2 प्रतिशत र. 1000 - होना और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउडरबन्ध का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसुली अधिकरण- II, दिल्ली के पक्ष में जमान करना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में ग्रहण करने से जमान जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसुली अधिकारी को अतिरिक्त में अर्द्ध जमान चाहिए)। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की बिडि सफल नहीं उद्घोषणा जारी करेगी की जाएगी। उस स्थिति में चुककर्ता क्रेता के द्वारा जमान को ओवरसैफ्टिफिकेशन यदि उचित समझा है तो तिथिक के खर्च समायोजित करने के पश्चात सरकारी खाते में जन्म कर दी जाएगी। अपॉ. उस स्थिति में चुककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग का संबंध में प्रगत समस्त अधिकारी जन्म हो जायेंगे।

15- वसुली अधिकरण / सीएफ बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह बिडि की घोषणा पत्रों पर निर्देश, परीक्ष, घरोर राशि, कुरिअर के माध्यम से और संजित के प्रमुख भाग पर विचारकार तथा उसके असमाप्त बंद बकाया करे और उसकी एक प्रतिय न्यायाधिकरण के नोटिसेस पत्रों में भी लाया जाय।

16- बिडि की घोषणा अपॉ. और स्थानीय भाग में, निम्नकार बंद में थाप्यल रूप से थाप्यक प्रसार हो, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाय।

17- सीएफएफआई / सीएफ बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह समाचार पत्रों में बिडिपत्र के प्रकाशना की पुष्टि करे और इस प्रकार के, उक्त प्रमाण अगली सुनवाई की ताबख से पहले दाखिल किए जाय।

18- प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना किसी बंद कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी प्राथमिकता या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।